



JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY KAKINADA
Kakinada-533003, Andhra Pradesh (India)


Projects/Internship/Field visits

AY : 2021-22

Program Code	Program Name	Projects		Internships		Field visits	
		No of projects	Total no. of students	No. of Internships	Total no. of students	No. of Field visits	Total no. of students
O21D52	M.Tech – PED	16	21	--	--	--	--
O21D08	M.Tech - HVE	18	18	--	--	--	--
O21D34	M.Tech – AEPS	11	13	--	--	--	--
O21A02	B.Tech-EEE	11	53	56	56	--	--


Coordinator


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003


HOD
Professor & Head
Dept. of Elec. & Electronics Engg.
University College of Engg.
J.N.T. University Kakinada
KAKINADA-533'003.



JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY KAKINADA
Kakinada-533003, Andhra Pradesh (India)

Internships

Program Code: 021A02

Program Name: B.TECH - EEE

Year 2021-22

S.No	Student name	Internship Title	Organization Location	FROM	TO	Dates (Duration)
1.	Budi Sai Ganesh	Study Of Substation Equipment And Various Protective Relays Used In Vizagsteel Plant	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
2.	B P K Phanindra	Maintenance Of Lcss, Hvic Transformer	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
3.	Kondeti Rahul	Maintenance Of Circuit Breakers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
4.	Dakaju Bharat	Maintenance Of Power Transformers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
5.	JosyulaSai Sri Harsha	Maintenance Of Power Transformers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
6.	Vadige Ajay Sasidhar	Maintenance Of Power Transformers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
7.	ChikkalaSaiSantoshi	Kakinada Plant	CORAMANDAL,KAKINADA	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
8.	Reddy Sri Devi	Study Of Power Distribution In Vsp	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
9.	B Bhagya Sri Lakshmi Pravallika	Study Of Maintenance Aspects Of Synchronous Motors	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
10.	DondapatiHemanthBabu	Study Of Various Types Of Ac And Dc Motors And Its Applications In Mills - Lmmm	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
11.	Kamu Sri Dharani	Study Of Maintenance Aspects Of Synchronous Motors	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
12.	Chaganti Sri NavyaPallavi	Kakinada Plant	CORAMANDAL,KAKINADA	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
13.	Bonthu Sri Naga Raksha	Study Of Substation Equipment And Various Protective Relays Used In Vizagsteel Plant	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
14.	KadamSaiSushma	Study Of Maintenance Aspects Of Synchronous Motors	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
15.	KaremuGreeshmaRatnam	Study Of Substation Equipment And Various	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks

		Protective Relays Used In Vizagsteel Plant				
16.	KanikariaSaiHarshavardhan Ram	Maintenance Of Circuit Breakers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
17.	ShaikTajuddin	Maintenance Of Lcss, Hvlc Transformers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
18.	BalagaVamsi	Study Of Various Types Of Ac And Dc Motors And Its Applications In Mills - Lmmm	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
19.	NandavanamChaitanya Prasad	Maintenance Of Lcss, Hvlc Transformers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
20.	DevalapalliSai Nikhil	Study Of Substation Equipment And Various Protective Relays Used In Vizagsteel Plant	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
21.	Chevveti Naga Kumar	Maintenance Of Power Transformers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
22.	KorraVidya	Study Of Maintenance Aspects Of Synchronous Motors	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
23.	DevarakondaLeelaJyosthna	Study Of Power Distribution In Vsp	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
24.	Dandu Praveen	Study Of Siemens Make Plcs And Their Architecture	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
25.	UppuSaiRishitha	Study Of Power Distribution In Vsp	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
26.	YedduVerraju	Maintenance Of Power Transformers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
27.	ChadaramVaishnavi	Study Of Power Distribution In BHEL	BHEL, HYDERABAD	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
28.	BasireddySaiCharan Reddy	Industrial Training In Rayalaseema Thermal Power Project	RTPP, KADAPA	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
29.	Gudavarapu Vijay Krishna	Maintenance Of Power Transformers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
30.	RouthuPavani	Study Of Plc And Automation	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
31.	Durgavarapu Lakshmi Vaishnavi	Study Of Various Types Of Ac And Dc Motors And Its Applications In Mills - Lmmm	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
32.	VadlamuriAbhiSusant	Study Of Siemens Make Plcs And Their Architecture	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
33.	KanchariaSushma	Maintenance Of Circuit Breakers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
34.	BoddanaSravan Kumar	Maintenance Of Circuit Breakers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
35.	Mukunda Ganesh	Maintenance Of Circuit Breakers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
36.	BalagaGowtham	Study Of Substation Equipment And Various Protective Relays Used In Vizagsteel Plant	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
37.	ChakkaniVenkat	Study Of Maintenance Aspects Of Different Types Of Motors In Rolling Mills	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
38.	Ghantasala Jaya Priya	Study Of Various Types Of Ac And Dc Motors And Its Applications In Mills - Lmmm	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
39.	Pendyala V MadhuriSudeepthi	Study Of Substation Equipment And Various	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks

40.	Pentapati V K N S Krishna Lokesh	Protective Relays Used In Vizagsteel Plant Maintenance Of Power Transformers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
41.	Banoth Anil Kumar	Development Of Embedded Systems For Open Loop Speed Control Dc Servo Motor Using Arduino(ATMEGA328P)	DRDO, HYDERABAD	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
42.	Gugulothu Sowjanya	Study Of Various Types Of Ac And Dc Motors And Its Applications In Mills - Lmmm	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
43.	Dogga Pravallika	Maintenance Of Lcss, Hvlc Transformers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
44.	Marisarajyothirmayi	Study Of Substation Equipment And Various Protective Relays Used In Vizagsteel Plant	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
45.	Mahammad Sofiya Sultana	Study Of PLC Automation	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
46.	Narra Naganilaya	Study Of Power Distribution In Vsp	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
47.	Namburi Bhaavya	Study Of PLC Automation	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
48.	Duppalapudi Raviteja	Maintenance Of Power Transformers	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
49.	Alla Jaya Surekha	Structural Mill (Stm)	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
50.	Rayana Gowthami Priyanka	Study Of Maintenance Aspects Of Different Types Of Motors In Rolling Mills	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
51.	Tadi Ajay Krishna	Study Of Power Distribution In Vsp	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
52.	Thippana Keerthana	Study Of PLC Automation	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
53.	Vasupillli Keerthi	Study Of Maintenance Aspects Of Different Types Of Motors In Rolling Mills	VIZAG STEEL PLANT	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
54.	Kola Sasikanth	Development Of Embedded Systems For Open Loop Speed Control Dc Servo Motor Using Arduino(ATMEGA328P)	DRDO, HYDERABAD	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
55.	Mohammad Ahmed Qureshi	Development Of Embedded Systems For Open Loop Speed Control Dc Servo Motor Using Arduino(ATMEGA328P)	DRDO, HYDERABAD	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks
56.	Matta Hemanth Sai Satya Ananth	Kakinada Plant	CORAMANDAL, KAKINADA	04.07.2022	30.07.2022	4 weeks


Coordinator


HOD/Academic Advisor
Professor & Head
Dept. of Elec. & Electronics Engg.
University College of Engg.
J.N.T. University Kakinada
KAKINADA-533 003.


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012294
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. BUDI SAI GANESH student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK (DNW) विभागों में
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF SUBSTATION EQUIPMENT AND VARIOUS PROTECTIVE
 RELAYS USED IN VIZAGSTEEL PLANT है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022

[Signature]
 Technical Training Institute
 Visakhapatnam Steel Plant
 Kakinada - 530031
 तंत्रिका प्रशिक्षण केंद्र, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र
 ककिनदा - 530031

[Signature]
 REGISTRAR
 J.N.T. University Kakinada
 Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012656
प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. BOPPE POTANA KOTA PHANINDRA student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL, विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK विभागों में
department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is MAINTENANCE OF LCSS, HVLC TRANSFORMERS है।
प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 30-07-2022


Registrar, Training Institute
Rashtriya Ispat Nigam Limited
Visakhapatnam Steel Plant
Technical Training Institute
Visakhapatnam-530031


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat
Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam
Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training
Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012660
प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that
Mr./Ms. KONDETI RAHUL student of

(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B
TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from

UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING
KAKINADA,KAKINADA से has undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in
DISTRIBUTION NET WORK (DNW) विभागों मे

department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022
प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is
MAINTENANCE OF CIRCUIT BREAKERS है।
प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct
during the period of training
is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam
दि./Date : 01-08-2022

REGISTRAR

Sudesh
REGISTRAR

J.N.T. University Kakinada



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012691
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. DAKOJU BHARAT student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK (DNW) विभागों में
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is MAINTENANCE OF POWER TRANSFORMERS है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022


 उपाध्यक्ष प्रशिक्षण विभाग
 Technical Training Institute
 02773 0000000000
 विशाखापत्तनम-530031
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र
 02773 0000000000
 विशाखापत्तनम-530031

port


 REGISTRAR
 J.N.T. University Kakinada
 Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012690

प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री / This is to certify that Mr./Ms. JOSYULA SAI SRI HARSHA student of

(सर्व पाठ्यक्रम शाखा: Year/course/branch) J/B/E/ TECH/EEE/ELECTRICAL विभागी में from

UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone

4 Week प्रशिक्षण (course) विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के (at Visakhapatnam Steel Plant) in DISTRIBUTION SET WORK (DSW) विभागी में

department from दि. 04-07-2022 से to 16-07-2022 प्राप्त तक किया।

प्रशिक्षण शीर्षक The Project Title is MAINTENANCE OF POWER TRANSFORMERS है।

प्रशिक्षण अवधि में अपना प्रदर्शन (His/Her conduct during the period of training
 is GOOD)।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022

(Signature)
 REGISTRAR
 J.N.T. University Kakinada
 Kakinada-533003

(Signature)
 REGISTRAR
 J.N.T. University Kakinada
 Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012683

प्रमाणपत्र Certificate




प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. VADIGE AJAY SASIDHAR student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK (DNW) विभागों में
department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया।

परियोजना शीर्षक The Project Title is MAINTENANCE OF POWER TRANSFORMERS है।
प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022


प्रशिक्षण सहकारी
Signature of Training Co-ordinator
एन.के.एस. रावु (N.K.S. Rao)
सहायक महासंचालक (प्रशिक्षण) Assistant General Manager (Training)
राष्ट्रीय इस्पात संयंत्र/Technical Training Institute
शेन नर्स हल इल-विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, Visakhapatnam Steel Plant
विशाखापत्तनम - 530031/Visakhapatnam-530031


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003

Coromandel / KKD / HR / PW / 2022


Aug 03, 2022

INTERNSHIP CERTIFICATE

This is to certify that **Ms. Ch Sai Santhoshi**, Id: **19021A0209** a student of **University college of Engineering Kakinada(A), JNTUK**, Studying **Bachelor of Technology - Electrical** has completed her Internship Training in our Kakinada Plant during the period from **04.07.2022 to 03.08.2022**.

During the period of her Industrial Training, she was found sincere, regular and hard working.

for Coromandel-International Limited,


Senior Manager - HR
J Chandramouli



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012641
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. REDDY SRIDEVI student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK विभागों में
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF POWER DISTRIBUTION IN VSP है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 30-07-2022

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. REDDY SRIDEVI student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in
 DISTRIBUTION NET WORK विभागों में department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |
 परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF POWER DISTRIBUTION IN VSP है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

REGISTRAR
 J.N.T. University Kakinada
 Kakinada-533003



**Rashtriya Ispat Nigam Limited Rashtriya Ispat Nigam Limited
Visakhapatnam Steel Plant
Technical Training Institute
Visakhapatnam-530031**

Reg.No. : 100012619
Certificate



This is to certify that Mr./Ms. **B BHAGYA SRI LAKSHMI PRAVALLIKA** student of
(Year/Course/Branch-Year/course/Branch) **3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL** student from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA has undergone

4 Week training (training Visakhapatnam Steel

Plant What at Visakhapatnam Steel Plant in **CENTRAL MAINTENANCE ELECTRICAL (CME)** departments
from the department. Received from **04-07-2022** to **30-07-2022** |

The Project Title is **STUDY OF MAINTENANCE ASPECTS OF SYNCHRONOUS MOTORS**.
His/Her conduct during the period of training
is **GOOD**

Place : Visakhapatnam

Date : 01-08-2022


Registrar
Department of Training & Development
Rashtriya Ispat Nigam Limited
Visakhapatnam Steel Plant
Technical Training Institute
Visakhapatnam-530031


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012672
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. **DONDAPATI HEMANTH BABU** student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) **3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL** विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in **LIGHT & MEDIUM MERCHANT MILL (LMMM)** विभागों में
 department from दि. **04-07-2022** से to **30-07-2022** प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is **STUDY OF VARIOUS TYPES OF AC AND DC MOTORS AND ITS APPLICATIONS IN MILLS - LMMM** है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is **GOOD** है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 02-08-2022

[Signature]
 अधिकारी/Officer
 विभागाध्यक्ष/In-charge
 प्रशिक्षण संयंत्र/Training Institute
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र/Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र/Technical Training Institute
 विशाखापत्तनम-530031/Visakhapatnam-530031

print

[Signature]
REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012624

प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. KAMU SRI DHARANI student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in CENTRAL MAINTENANCE ELECTRICAL (CME) विभागों में
department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया।

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF MAINTENANCE ASPECTS OF SYNCHRONOUS MOTORS है।
प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022


Registrar
Rashtriya Ispat Nigam Limited
एन.टी.यू. ककिनदा, ककिनदा
विशाखापत्तनम, आंध्रप्रदेश-533003
www.rishtriyaispatnigam.com
www.visakhapatnamsteelplant.com
www.technicaltraininginstitute.com


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



Coromandel International Limited
Barrack Road, Kakinada - 533001
Andhra Pradesh, India
Tel: 91 854 241 211 to 2302401 Fax: 2302410
Website: www.coromandel.co
CN: 241207019619500092

Coromandel / KKD / HR / PW / 2022

Aug 03, 2022

INTERNSHIP CERTIFICATE

This is to certify that Ms. Ch Sri Navya Pallavi, Id: 19021A0214 a student of University college of Engineering Kakinada(A), JNTUK, Studying Bachelor of Technology - Electrical has completed her Internship Training in our Kakinada Plant during the period from 04.07.2022 to 03.08.2022.

During the period of her Industrial Training, she was found sincere, regular and hard working.

for Coromandel International Limited

Senior Manager - HR
J. Chandramouli



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012614
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. BONTHU SRI NAGA RAKSHA student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK (DNW) विभागों में
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया।

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF SUBSTATION EQUIPMENT AND VARIOUS PROTECTIVE
 RELAYS USED IN VIZAGSTEEL PLANT है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022

Signature of Registrar
 Signature of Registrar
 Signature of Registrar
 Signature of Registrar
 Signature of Registrar
 Signature of Registrar
 Signature of Registrar
 Signature of Registrar
 Signature of Registrar
 Signature of Registrar

REGISTRAR
 J.N.T. University Kakinada
 Kakinada-530002



RAJESH KUMAR
VIZAG
STEEL
Pride of Steel
A Navratna Company

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012618

प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. KADAM SAI SUSHMA student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in CENTRAL MAINTENANCE ELECTRICAL (CME) विभागों में
department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया।

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF MAINTENANCE ASPECTS OF SYNCHRONOUS MOTORS है।
प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022


प्रमाणित किया जाता है
Signature of Training In-charge
RAJESH KUMAR VIZAG STEEL
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र
विशाखापत्तनम-530031


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-530002



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012615

प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. KAREMU GRESHMA RATNAM student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK (DNW) विभागों में
department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया।

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF SUBSTATION EQUIPMENT AND VARIOUS PROTECTIVE RELAYS
USED IN VIZAGSTEEL PLANT है।
प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022

Signature of Training Controller
Signature of Training Controller
प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. KAREMU GRESHMA RATNAM student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK (DNW) विभागों में
department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया।


REGISTRAR

J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012657
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. SHAIK TAJUDDIN student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK विभागों में
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is MAINTENANCE OF LCSS, HVLC TRANSFORMERS है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam
 दि./Date : 30-07-2022


 उपाध्यक्ष प्रशिक्षण केंद्र
 Secretary of Training Institute
 एन.टी.के.ए. विश्वविद्यालय, कakinada
 विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
 भारतीय प्रशिक्षण संयंत्र, Technical Training Institute
 307 401 100, विशाखापत्तनम, इस्पात संयंत्र, Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम - 530031, Andhra Pradesh, India


 REGISTRAR

J.N.T. University Kakinada
 Kakinada, 530003



RAJESH KUMAR
VIZAG
STEEL
Pride of Steel
A Navratna Company

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012674

प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. **BALAGA VAMSI** student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) **3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL** विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in **LIGHT & MEDIUM MERCHANT MILL (LMMM)** विभागों में
department from दि. **04-07-2022** से to **30-07-2022** प्राप्त तक किया।

परियोजना शीर्षक The Project Title is **STUDY OF VARIOUS TYPES OF AC AND DC MOTORS AND ITS APPLICATIONS IN MILLS - LMMM** है।

प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
is **GOOD** है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 02-08-2022


Registrar of Training, Visakhapatnam
VIZAG STEEL, Rajamahendravaram
District - VISAKHAPATNAM, Andhra Pradesh
Pin-531125. VIZAG STEEL Training Institute
आर.आई.एन.टी. विश्वविद्यालय, ककिनदा, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश
विशाखापत्तनम - 530031, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED
(एन.ए.सी. को. 1129) (A Government of India Enterprise)
विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
विशाखापट्टणम Visakhapatnam
ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001 & OHSAS 18001 Certified Company

अधीनम और विकास केंद्र
Learning and Development Center

Reg.No. : 100012648
प्रमाणपत्र Certificate

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that
Mr./Ms. NANDANAVANAM CHAITANYA PRASAD
student of (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा - Year/course/Branch)
3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING
KAKINADA,KAKINADA से has undergone 4 Week
प्रशिक्षण training विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र के at
Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET
WORK विभागों में department from दि. 04-07-2022 से to
30-07-2022 प्राप्त तक किया | परियोजना शीर्षक The Project
Title is MAINTENANCE OF LCSS, HVLC
TRANSFORMERS है। प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण
His/Her conduct during the period of training is
GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 30-07-2022





राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012698
प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. CHEVVETI NAGA KUMAR student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK (DNW) विभागों में
department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is MAINTENANCE OF POWER TRANSFORMERS है।
प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



**Rashtriya Ispat Nigam Limited Rashtriya Ispat Nigam Limited
 Visakhapatnam Steel Plant Visakhapatnam Steel Plant
 Technical Training Centre, Technical Training Institute
 Visakhapatnam Visakhapatnam-530031**

Reg.No. : 100012609
 certificate certificate



Certified that Mr. /This is to certify that Mr./Ms. **DEVALAPALLI SAI NIKHIL** student of
 (Year/Course/Branch-Year/course/Branch) **3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL** student from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA has undergone

4 Weeks training

at Visakhapatnam Steel Plant Visakhapatnam Steel Plant in **DISTRIBUTION NET WORK (DNW)**
 Departments

from the department. Received from **04-07-2022** to **30-07-2022** .

Project Title The Project Title is **STUDY OF SUBSTATION EQUIPMENT AND VARIOUS PROTECTIVE RELAYS
 USED IN VIZAGSTEEL PLANT** Is.

His/Her conduct during the period of training
 is **GOOD** .

Venue/Place : Visakhapatnam Dt./Date :
01-08-2022

[Signature]
 Director, Training Institute
 Rashtriya Ispat Nigam Limited
 Technical Training Centre
 Visakhapatnam-530031

[Signature]
REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533001



**Rashtriya Ispat Nigam Limited Rashtriya Ispat Nigam Limited
Visakhapatnam Steel Plant
Technical Training Institute
Visakhapatnam-530031**

Reg.No. : 100012623
Certificate



This is to certify that Mr./Ms. KORRA VIDYA student of
(Year/Course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL student from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA has undergone
4 Week training at Visakhapatnam Steel
Plant at Visakhapatnam Steel Plant in CENTRAL MAINTENANCE ELECTRICAL (CME) department
from Received from 04-07-2022 to 30-07-2022 |

The Project Title is **STUDY OF MAINTENANCE ASPECTS OF SYNCHRONOUS MOTORS**.
His/Her conduct during the period of training
is **GOOD**

Place : Visakhapatnam
Date : 01-08-2022

[Signature]
In-charge of Training Coordinator
at VIZAG STEEL, Visakhapatnam
Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam
Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam
Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam
Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam
Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam

[Signature]
REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



VIZAG
STEEL
 Pride of Steel
 A Navratna Company

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012668
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. **DEVARAKONDA LEELA JYOSTNA** student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) **3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL** विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK विभागों मे
department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया।

परियोजना शीर्षक The Project Title is **STUDY OF POWER DISTRIBUTION IN VSP** है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is **GOOD** है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 30-07-2022

उपनिदेशक प्रशिक्षण विभाग
 Director of Training, Vizakhapatnam
 एन.टी.यू.ए.के. ककिनदा
 National Institute of Technical Education & Research
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र
 and Joint JNTU Kakinada Campus, Visakhapatnam Steel Plant
 विशाखापत्तनम - 530031

REGISTRAR

J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012679
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. DANDU PRAVEEN student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से has undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in SPECIAL BAR MILL (SBM) विभागों में

department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF SIEMENS MAKE PLCS AND THEIR ARCHITECTURE है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 02-08-2022

प्रमाणित किया जाता है
 Signature of Director, Conductions
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र
 विशाखापत्तनम (विभाग) Technical Training Institute
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Technical Training Institute
 आर आई एन एम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम - 530031, Visakhapatnam, India

print


 REGISTRAR

J.N.T. University Kakinada
 Kakinada-533003



**Rashtriya Ispat Nigam Limited Rashtriya Ispat Nigam Limited
Visakhapatnam Steel Plant
Technical Training Institute
Visakhapatnam-530031**

Reg.No. : 100012637
Certificate



This is to certify that Mr./Ms. **UPPU SAI RISHITHA** student of
(Year/Course/Branch-Year/course/Branch) **3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL** Student from
JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY(UCEK),KAKINADA has undergone
4 Week training training Visakhapatnam Steel
Plant What at Visakhapatnam Steel Plant in **DISTRIBUTION NET WORK** departments
from the department. Received from **04-07-2022 to 30-07-2022** |

Project Title The Project Title is **STUDY OF POWER DISTRIBUTION IN VSP.**
His/Her conduct during the period of training
is **GOOD**

Place : Visakhapatnam

Date : 30-07-2022


Director of Training
Rashtriya Ispat Nigam Limited
Visakhapatnam Steel Plant
Technical Training Institute
Visakhapatnam-530031



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012611
प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. YEDDU VEERRAJU student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK (DNW) विभागों में
department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया ।

परियोजना शीर्षक The Project Title is MAINTENANCE OF POWER TRANSFORMERS है।
प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022

Signature of Training Co-ordinator
Signature of Training Co-ordinator
Signature of Training Co-ordinator
Signature of Training Co-ordinator
Signature of Training Co-ordinator
Signature of Training Co-ordinator
Signature of Training Co-ordinator
Signature of Training Co-ordinator
Signature of Training Co-ordinator
Signature of Training Co-ordinator


REGISTRAR

J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
रामचंद्रापुरम, हैदराबाद
मानव संसाधन विकास केंद्र



BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
RAMACHANDRAPURAM, HYDERABAD-502032
Human Resource Development Centre

Ref No: 22ENG95039

Date: 30-07-2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr./Ms./Mrs. CHADARAM VAISHNAVI

with college id no: 19021A0230


studying in UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, JNTU (A)

pursuing B.E/B.Tech/MBA in ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING

discipline had undergone project training from 01-07-2022

to 30-07-2022. The title of the project as per our records is

STUDY OF POWER DISTRIBUTION IN BHEL


Project training in-charge
REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



ANDHRA PRADESH POWER GENERATION CORPORATION
LIMITED

RAYALASEEMA THERMAL POWER PROJECT
V.V.REDDY NAGAR, KADAPA DISTRICT-516312

CERTIFICATE


This to certify that in the plant training entitled
**INDUSTRIAL TRAINING IN RAYALASEEMA THERMAL POWER
PROJECT**

Under the guidance and supervision in partial fulfillment of requirement
for the award of the degree of B.Tech for the student of

ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING

B.SAI CHARAN REDDY - 19021A0231

Has undergone **INDUSTRIAL TRAINING** during the academic year
2022 and his conduct found satisfactory


Sri N. MUNI PRASAD
ASST. DIVISIONAL ENGINEER
EM&MRT/STAGE-1
ASSISTANT IIR&STPP,
MRT/Slg-I/R.TRP/APGENCO
V.V. Reddy Nagar-516312


REGISTRAR

J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533007



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012685

प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. GUNDAVARAPU VIJAY KRISHNA student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK (DNW) विभागों मे
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया।

परियोजना शीर्षक The Project Title is MAINTENANCE OF POWER TRANSFORMERS है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 30-07-2022


 अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र, विशाखापत्तनम
 Director of Training Institute
 विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम
 Director, Technical Training Institute
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम
 विशाखापत्तनम - 530031/Visakhapatnam-530031


 REGISTRAR
 J.N.T. University Kakinada



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012638
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. ROUTHU PAVANI student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in STRUCTURAL MILL (STM) विभागों में
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF PLC AND AUTOMATION है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 30-07-2022

[Signature]
 अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र
 Institute of Training & Development
 100 मीटर बिल्डिंग, लोहरा बाजार
 विशाखापत्तनम - 530031
 भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम
 भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र
 विशाखापत्तनम - 530031

print

[Signature]
 REGISTRAR
 J.N.T. University, Kakinada
 Kakinada - 530014



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012677
प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. DURGAVARAPU LAKSHMI VAISHNAVI student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in LIGHT & MEDIUM MERCHANT MILL (LMMM) विभागों में
department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF VARIOUS TYPES OF AC AND DC MOTORS AND ITS
APPLICATIONS IN MILLS - LMMM है।
प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 02-08-2022


Signature of Training Co-ordinator
The Project Title is STUDY OF VARIOUS TYPES OF AC AND DC MOTORS AND ITS APPLICATIONS IN MILLS - LMMM है।
प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training is GOOD है।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. DURGAVARAPU LAKSHMI VAISHNAVI student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in LIGHT & MEDIUM MERCHANT MILL (LMMM) विभागों में department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |
परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF VARIOUS TYPES OF AC AND DC MOTORS AND ITS APPLICATIONS IN MILLS - LMMM है।
प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training is GOOD है।
स्थल/Place : Visakhapatnam
दि./Date : 02-08-2022

print


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-530003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012670
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. VADLAMURI ABHI SUSANT student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in SPECIAL BAR MILL (SBM) विभागों मे
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF SIEMENS MAKE PLCS AND THEIR ARCHITECTURE है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 02-08-2022


 प्रशिक्षण अधिकारी का पदनाम
 Signature of Training Officer
 श्री गणेश बाबु श्री Ganesha Babu
 सहायक प्रशिक्षण अधिकारी (प्रशिक्षण) Assistant General Manager (Training)
 तकनीकी प्रशिक्षण संयंत्र/Technical Training Institute
 आई आई एन सी कलिंगापुरा 250015 530031, Visakhapatnam Steel Plant
 विशाखापत्तनम - 530031/Visakhapatnam-530031


 REGISTRAR
 J.N.T. University Kakinada
 Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012665
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. **KANCHARLA SUSHMA** student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) **3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL** विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in **DISTRIBUTION NET WORK (DNW)** विभागों मे
 department from दि. **04-07-2022** से to **30-07-2022** प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is **MAINTENANCE OF CIRCUIT BREAKERS** है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is **GOOD** है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022


 अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र
 Signature of Training Center Officer
 श्री ज.टी. विश्वविद्यालय (जी.टी.यू.) विशाखापत्तनम (शिक्षण)
 J.N.T. University (J.N.T.U.) Visakhapatnam (Training)
 आर. एन. टी. यू. - विशाखापत्तनम (शिक्षण केंद्र), विशाखापत्तनम (शिक्षण केंद्र)
 R.N.T.U. - Visakhapatnam (Training Center), Visakhapatnam (Training Center)


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012667
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. **BODDANA SRAVAN KUMAR** student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) **MBE/B TECH/EE/ELECTRICAL** विभागीय से from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in **DISTRIBUTION NET WORK (DNW)** विभागीय से
 department from दि. **04-07-2022** से to **30-07-2022** तक किताब |

परियोजना शीर्षक: The Project Title is **MAINTENANCE OF CIRCUIT BREAKERS** है।
 प्रशिक्षण अवधि में उसके आचरण His/Her conduct during the period of training
 is **GOOD** है।

स्थान/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022

(Signature)
 Director of Training & Development
 VIZAG STEEL
 Technical Training Institute
 Visakhapatnam-530031

(Signature)
REGISTRAR

J.N.T. University Kakinada
 Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012639
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. MUKUNDA GANESH student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK (DNW) विभाग में
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया ।

परियोजना शीर्षक The Project Title is MAINTENANCE OF CIRCUIT BREAKERS है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थान/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
 Director of Training, Visakhapatnam
 530031, V.S.P. Road, Visakhapatnam
 भारत सरकार (भारत), Rashtriya Ispat Nigam Limited, 530031
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, Technical Training Institute
 530031, विशाखापत्तनम, एंडhra Pradesh, India
 530031, विशाखापत्तनम, एंडhra Pradesh, India


 REGISTRAR

J.N.T. University Kakinada
 Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012658
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. **BALAGA GOWTHAM** student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) **3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL** विद्यार्थी ने from
JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY(UCEK),KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in **DISTRIBUTION NET WORK (DNW)** विभागों में
 department from दि. **04-07-2022** से to **30-07-2022** प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is **STUDY OF SUBSTATION EQUIPMENT AND VARIOUS PROTECTIVE
 RELAYS USED IN VIZAGSTEEL PLANT** है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is **GOOD** है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 30-07-2022


 अधिकारी प्रशिक्षण संयंत्र
 Signature of Training Institute
 (उपरोक्त) ३०/०७/२०२२
 अधिकारी प्रशिक्षण संयंत्र (उपरोक्त) Assistant General Manager (Training)
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Technical Training Institute
 ३०/०७/२०२२
 ३०/०७/२०२२
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
 विशाखापत्तनम - ५३००३१



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat
Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam
Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training
Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012633
प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that
Mr./Ms. CHAKKANI VENKAT student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B
TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from

UNIVERSITY COLLEGE OF
ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से
has undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in
CENTRAL MAINTENANCE ELECTRICAL
(CME) विभागों में

department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-
2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF
MAINTENANCE ASPECTS OF DIFFERENT
TYPES OF MOTORS IN ROLLING MILLS है।
प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct
during the period of training
is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam




REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012613
प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. GHANTASALA JAYA PRIYA
student of

(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने
from

UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से has
undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in LIGHT & MEDIUM MERCHANT MILL.
(LMMM) विभागों में

department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF VARIOUS TYPES OF AC AND DC
MOTORS AND ITS APPLICATIONS IN MILLS - LMMM है।

प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 30-07-2022


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012612
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. **PENDYALA V M SUDEEPTHI** student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) **3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL** विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in **DISTRIBUTION NET WORK (DNW)** विभागों में
 department from दि. **04-07-2022** से to **30-07-2022** प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is **STUDY OF SUBSTATION EQUIPMENT AND VARIOUS PROTECTIVE RELAYS USED IN VIZAGSTEEL PLANT** है।

प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is **GOOD** है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022


 उपाध्यक्ष प्रशिक्षण केंद्र
 Signature of Training Co-ordinator
 डॉ. ए.टी.एन. सुब्बास्वामी
 Assistant General Manager (Training)
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र/Technical Training Institute
 आर. आई. एन. इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम-530031
 VISAGSTEEL - 330031/Visakhapatnam-530031


 REGISTRAR
 J.N.T. University Kakinada
 Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012626
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. PENTAPATI V K N S KRISHNA LOKESH student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK (DNW) विभागों में
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is MAINTENANCE OF POWER TRANSFORMERS है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam
 दि./Date : 01-08-2022

(Signature)
 प्रशिक्षण निदेशक का दस्तावेज
 Signature of Training Co-Ordinator
 एन.एन.टी. विश्वविद्यालय, कakinada
 N.T. University, Kakinada
 विशाखापत्तनम (आंध्रप्रदेश) भारत
 Visakhapatnam (Andhra Pradesh) India
 530031
 0866-2531111/0866-2531112

(Signature)
 REGISTRAR
 J.N.T. University Kakinada



Research & Development Organization (MOJ)
RESEARCH CENTRE IMARAT
HYDERABAD – 500 069
Phone : 040 – 24306103
Fax : 040 – 24306003

CERTIFICATE

This is to certify that the following 4th year B.tech students Electrical & Electronics Engineering (EEE) at UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, JNTUK has successfully completed the Project titled “Development Of Embedded System For Open Loop Speed Control DC Servo Motor Using Arduino(ATMEGA328P)” at Directorate of Embedded Computer Systems, RCI, DRDO during the period from 27th June, 2022 to 28th July, 2022.

- BANOTH ANIL KUMAR, Roll No. 19021A0245
- KOLA SASIKANTH, Roll No. 20025A0259
- MOHAMAD AHMAD QURESHI, Roll No. 20025A0260



S. Saida Safavathi
Shri SAIDA SAFAVATH
Scientist 'E'
RCI, DRDO,
HYDERABAD.

वैज्ञानिक/Scientist
निदेशालय, जलविशेषज्ञ एवं एम्बेडेड कंप्यूटर्स
Directorate of Navigation and Embedded Computers
अनुसंधान केंद्र इमारत/Research Centre Imarat
रक्षा मंत्रालय, हैदराबाद/Min. of Defence, Hyderabad-50.
REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



VIZAG
STEEL
 Pride of Steel
 A Navratna Company

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012671

प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. GUGULOTHU SOWJANYA student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा- Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in LIGHT & MEDIUM MERCHANT MILL (LMMM) विभागों में
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया।

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF VARIOUS TYPES OF AC AND DC MOTORS AND ITS
 APPLICATIONS IN MILLS - LMMM है।

प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 02-08-2022

प्रशिक्षण समन्वयक का हस्ताक्षर
 Signature of Training Coordinator
 श्री. गणेश शर्मा
 प्रशिक्षण समन्वयक (प्रशिक्षण) Assistant General Manager (Training)
 तकनीकी प्रशिक्षण संयंत्र, विशाखापत्तनम इस्पात निगम लिमिटेड
 402, आई एन सी इस्पात संयंत्र (भूतल), विशाखापत्तनम इस्पात निगम लिमिटेड
 विशाखापत्तनम - 530031, Visakhapatnam-530031

REGISTRAR

J.N.T. University Kakinada

Kakinada-530002



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012622
प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. **DOGGA PRAVALLIKA** student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) **3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL** विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in **DISTRIBUTION NET WORK** विभागों में
department from दि. **04-07-2022** से to **30-07-2022** प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is **MAINTENANCE OF LCSS, HVLC TRANSFORMERS** है।
प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
is **GOOD** है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 30-07-2022


प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अधिकारी
Signature of Training Co-ordinator
एच.एन.टी. विश्वविद्यालय, कakinada
आसिस्टेंट जनरल मैनेजर (प्रशिक्षण)
आसिस्टेंट प्रशिक्षण अधिकारी/Technical Training Institute
आसिस्टेंट प्रशिक्षण अधिकारी/Assistant General Manager (Training)
आसिस्टेंट प्रशिक्षण अधिकारी/Assistant General Manager (Training)
विशाखापत्तनम - 530031, Visakhapatnam-530031


REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada, 530031



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012634
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. MAHAMMAD SOFIYA SULTANA student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, KAKINADA से has undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in STRUCTURAL MILL (STM) विभागों में

department from दि 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया।

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF PLC AND AUTOMATION है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि /Date : 30-07-2022

[Signature]
 Director
 Technical Training Institute
 Visakhapatnam Steel Plant
 Visakhapatnam - 530031

[Signature]
 REGISTRAR
 J.N.T. University, K. J. Somayajulu
 Hyderabad - 500030



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012664
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. **NARRA NAGA NILAYA** student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) **3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL** विद्यार्थी ने from
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in **DISTRIBUTION NET WORK** विभागों में

department from दि. **04-07-2022** से to **30-07-2022** प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is **STUDY OF POWER DISTRIBUTION IN VSP** है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is **GOOD** है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 30-07-2022


 प्रशिक्षण समन्वयक का स्थान
 Signature of Training Coordinator
 05 मॉडल बिल्डिंग, Visakhapatnam
 भारत का महानगर (दक्षिण) Assistant General Manager (Training)
 112-0001 इन्जीनियरिंग कालोनी Technical Training Institute
 487 आई आई एन एन इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम, ओडिशा
 विशाखापत्तनम - 530031/Visakhapatnam-530031



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012632
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. NAMBURI BHAAVYA student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विभाग में ने from
 JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY(UCEK),KAKINADA से has undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संग्रह के at Visakhapatnam Steel Plant in STRUCTURAL MILL (STM) विभाग में

department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 तक किया।

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF PLC AND AUTOMATION है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थान/Place Visakhapatnam

दि /Date 30-07-2022

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. NAMBURI BHAAVYA student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विभाग में ने from
 JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY(UCEK),KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात संग्रह के at Visakhapatnam Steel Plant in
 STRUCTURAL MILL (STM) विभाग में department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 तक किया।
 परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF PLC AND AUTOMATION है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training is GOOD है।

REGISTRAR

J.N.T. University Kakinada/
 Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012704
 प्रमाणपत्र Certificate




प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. DUPPALAPUDI RAVI TEJA student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK (DNW) विभागों में
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is MAINTENANCE OF POWER TRANSFORMERS है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 01-08-2022


 उपाध्यक्ष प्रशिक्षण केंद्र, विशाखापत्तनम
 Signature of Training In-charge
 02, एन.टी.यू. कॉम्प्लेक्स, विशाखापत्तनम
 Associate General Manager (Training)
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र/Technical Training Institute
 आर.आई.एन.ए. 100, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम (आंध्रप्रदेश)
 विशाखापत्तनम - 530031, Visakhapatnam (India)


 REGISTRAR

J.N.T. University Kakinada



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100013018
प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. RAYANA GOWTHAMI PRIYANKA student of
(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY(UCEK),KAKINADA से has undergone
4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in CENTRAL MAINTENANCE ELECTRICAL (CME) विभागों में
department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF MAINTENANCE ASPECTS OF DIFFERENT TYPES OF MOTORS
IN ROLLING MILLS है।

प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 30-07-2022


उपनिवेश निदेशक (प्रशिक्षण)
Signature of Training Co-ordinator
श्री प्रदीप बिंदु राम Gopesh Babu
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) Assistant General Manager (Training)
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, Technical Training Institute
आर. आई. एन. एस. विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, VIZAG, Visakhapatnam Steel Plant
विशाखापत्तनम - 530031, Visakhapatnam-530031


REGISTRAR

J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012669
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. TADI AJAY KRISHNA student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY(UCEK),KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in DISTRIBUTION NET WORK विभागों में
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया |

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF POWER DISTRIBUTION IN VSP है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 02-08-2022


 प्रशिक्षण समन्वयक का हस्ताक्षर
 Signature of Training Coordinator
 श्री टी.ए.के.एम. जयसूरी
 महाप्रबन्धक (प्रशिक्षण) Assistant General Manager (Training)
 (राष्ट्रीय इस्पात निगम) Visakhapatnam Steel Plant
 और आई.एन.एस. विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, VIZAG, Visakhapatnam Steel Plant
 विशाखापत्तनम - 530031/Visakhapatnam-530031


 REGISTRAR
 J.N.T. University Kakinada



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012635
 प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. THIPPANA KEERTHANA student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA,KAKINADA से has undergone

4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात

संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in STRUCTURAL MILL (STM) विभागों में
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया।

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF PLC AND AUTOMATION है।
 प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 30-07-2022


 उपनिवेश प्रशिक्षण केन्द्र प्रमुख
 Signature of Training Co-ordinator
 श्री जी.वेणुकाटेश, श्री गणेश नगर
 उपनिवेश प्रशिक्षण केंद्र, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र
 Technical Training Institute
 आर.आई.एन.ए. विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम-530031
 विशाखापत्तनम - 530031 / विशाखापत्तनम-530031


 REGISTRAR
 J.N.T. University Kakinada
 Kakinada-533003



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited
 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant
 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, Technical training Institute
 विशाखापत्तनम Visakhapatnam-530031

Reg.No. : 100012628

प्रमाणपत्र Certificate



प्रमाणित किया जाता है कि श्री /This is to certify that Mr./Ms. KEERTHI VASUPILLI student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY(UCEK),KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात
 संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in CENTRAL MAINTENANCE ELECTRICAL (CME) विभागों में
 department from दि. 04-07-2022 से to 30-07-2022 प्राप्त तक किया।

परियोजना शीर्षक The Project Title is STUDY OF MAINTENANCE ASPECTS OF DIFFERENT TYPES OF MOTORS IN
 ROLLING MILLS है।

प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training
 is GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि./Date : 30-07-2022

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/This is to certify that Mr./Ms. KEERTHI VASUPILLI student of
 (वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा-Year/course/Branch) 3/BE/B TECH/EEE/ELECTRICAL विद्यार्थी ने from
 JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY(UCEK),KAKINADA से has undergone
 4 Week प्रशिक्षण training विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के at Visakhapatnam Steel Plant in
 CENTRAL MAINTENANCE ELECTRICAL (CME) विभागों में department from दि. 04-07-2022 से to
 30-07-2022 प्राप्त तक किया।

print


 J.N.T. University Kakinada
 Kakinada-533003



Research & Development Organization (MOD)
RESEARCH CENTRE IMARAT
HYDERABAD – 500 069
Phone : 040 – 24306103
Fax : 040 – 24306003

CERTIFICATE

This is to certify that the following 4th year B.tech students Electrical & Electronics Engineering (EEE) at UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, JNTUK has successfully completed the Project titled “Development Of Embedded System For Open Loop Speed Control DC Servo Motor Using Arduino(ATMEGA328P)” at Directorate of Embedded Computer Systems, RCI, DRDO during the period from 27th June, 2022 to 28th July, 2022.

BANOTH ANIL KUMAR, Roll No. 19021A0245

KOLA SASIKANTH, Roll No. 20025A0259

MOHAMAD AHMAD QURESHI, Roll No. 20025A0260



S. Saida Safavath
Shri SAIDA SAFAVATH
Scientist 'E'
RCI, DRDO,
HYDERABAD.

वैज्ञानिक/Scientist
निदेशालय, नवगणना एवं एम्बेडेड कंप्यूटर्स
Directorate of Navigation and Embedded Computers
जुसंधान केन्द्र इमारत/Research Centre Imarat
रक्षा मंत्रालय, हैदराबाद/Min. of Defence, Hyderabad-69.
Sudesh
REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533001
Scanned by TopScanner



Research & Development Organization (MOD)
RESEARCH CENTRE IMARAT
HYDERABAD - 500 069
Phone : 040 - 24306103
Fax : 040 - 24306003

CERTIFICATE

This is to certify that the following 4th year B.tech students Electrical & Electronics Engineering (EEE) at UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING KAKINADA, JNTUK has successfully completed the Project titled "Development Of Embedded System For Open Loop Speed Control DC Servo Motor Using Arduino(ATMEGA328P)" at Directorate of Embedded Computer Systems, RCI, DRDO during the period from 27th June, 2022 to 28th July, 2022.

BANOTH ANIL KUMAR, Roll No. 19021A0245

KOLA SASIKANTH, Roll No. 20025A0259

MOHAMAD AHMAD QURESHI, Roll No. 20025A0260



S. Saida Safavath
Shri SAIDA SAFAVATH
Scientist 'E'
RCI, DRDO,
HYDERABAD.

Sudesh
REGISTRAR
J.N.T. University Kakinada
Kakinada-533003
वैज्ञानिक/Scientist
निदेशालय, लॉजिस्टिक्स एवं एम्बेडेड कंप्यूटर्स
Directorate of Navigation and Embedded Computers
अनुसंधान केन्द्र इमारत/Research Centre Imarat
रक्षा मंत्रालय, हैदराबाद/Min. of Defence, Hyderabad-69

Coromandel / KKD / HR / PW / 2022

Aug 03, 2022

INTERNSHIP CERTIFICATE

This is to certify that **Mr. Matta Hemanth**, Id: 20025A0261 a student of **University college of Engineering Kakinada(A), JNTUK**, Studying **Bachelor of Technology - Electrical** has completed his **Internship Training** in our Kakinada Plant during the period from **04.07.2022 to 03.08.2022**.

During the period of his Industrial Training, he was found sincere, regular and hard working.

for Coromandel International Limited,



Senior Manager - HR
J. Chandramouli